

2. आयकर अधिनियम के अनुसार कटौती और छूट की शर्तों की व्याख्या कीजिए। आयकर अधिनियम 1961 के तहत उपलब्ध विभिन्न कटौती क्या हैं? (10)

या

सेवानिवृत्ति नियोजन क्या है? भारत में सेवानिवृत्ति नियोजन के लिए उपलब्ध विभिन्न निवेश विकल्प क्या हैं? (10)

3. किसी दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए: (2×5=10)

(क) क्रेडिट जीवन बीमा

(ख) स्वास्थ्य बीमा

(ग) मुद्रा डेस्विटिव

(घ) धन का समय मूल्य

[This question paper contains 4 printed pages.]

Your Roll No.....

Sr. No. of Question Paper : 3888

J

Unique Paper Code : 2416000004

Name of the Paper : Personal Financial Planning

Name of the Course : **Common Prog Group (UGCF)**

Semester : II/IV/VI

Duration : 1 Hours

Maximum Marks : 30

Instructions for Candidates

1. Write your Roll No. on the top immediately on receipt of this question paper.
2. Attempt **all** questions.
3. **All** questions carry equal marks
4. Answers may be written either in **English or Hindi**; but the same medium should be used throughout the paper.

3888

2

छात्रों के लिए निर्देश

1. इस प्रश्न-पत्र के मिलते ही ऊपर दिए गए निर्धारित स्थान पर अपना अनुक्रमांक लिखिए ।
2. सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए ।
3. सभी प्रश्न के अंक समान हैं।
4. इस प्रश्न पत्र का उत्तर अंग्रेजी या हिंदी किसी एक भाषा में दीजिए लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए ।

1. Elaborate the concept of mutual fund. Explain any five types of mutual fund scheme available for investment in India. (10)

OR

Explain the different types of investment avenues available to individuals, highlighting their risk levels, return potential, and liquidity. (10)

2. Explain the terms Deduction and Exemption as per Income Tax Act. What are the various deductions available under the Income Tax act 1961? (10)

3888

3

OR

What is retirement planning? What are the various investment options available for the retirement planning in India? (10)

- 3 Write a short on (any two): (2x5= 10)

(a) Credit Life Insurance

(b) Health Insurance

(c) Currency Derivatives

(d) Time Value of Money

1. म्यूचुअल फंड की अवधारणा विस्तार से समझाइए। भारत में निवेश के लिए उपलब्ध म्यूचुअल फंड स्कीम के किसी भी पाँच प्रकार की व्याख्या कीजिए। (10)

या

व्यक्तियों के लिए उपलब्ध विभिन्न प्रकार के निवेश के तरीकों की व्याख्या कीजिए, उनके जोखिम स्तर, रिटर्न क्षमता और तरलता पर प्रकाश डालिये। (10)

P.T.O.